



सत्यमेव जयते

आयुक्त (अपील) का कार्यालय,
Office of the Commissioner (Appeal),
केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय, अहमदाबाद
Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.
CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015
☎ 07926305065- टेलिफैक्स 07926305136



स्पीड पोस्ट

- क फाइल संख्या : File No : V2(ST)160/Ahd-South/2018-19/14294 to 14298
- ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-109-2019-20
दिनांक Date : 27-02-2020 जारी करने की तारीख Date of Issue 16/03/2020
आयुक्त (अपील) द्वारा पारित
Passed by **Shri Akhilesh Kumar**, Commissioner (Appeals)
- ग Arising out of Order-in-Original No. CGST/WS08/REF-85/SKC/Apexa/18-19 दिनांक: 28.09.2018
issued by Assistant Commissioner, Div-VI, CGST, Ahmedabad-South
- घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
Apexa Information Systems Pvt Ltd
302-A, B Block, Shivalik Corporate Park, Behind IOC Petrol Pump
132,ft Ring Road, Satellite
Ahmedabad-380015


कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

- (1) केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- (i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :
- (ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- (ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.



(क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद -380004

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है .

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been filed by M/s Apexa Information System Pvt Ltd., 8th Floor, Wall Street Annexe, above J.B.Banguet, Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad [hereinafter referred to "appellant"] against Order-in-Original NO.CGST/WS08/Ref-85/SKC/Apexa/18-19 dated 28.09.2018 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Assistant Commissioner of CGST, Division-VI, Ahmedabad South [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. The facts of the case, in brief, are that the appellant has filed a refund claim amounting to Rs.1,38,411/- on the grounds that they had paid excess payment of Service Tax by mistake towards "Business Exhibition Service" and Commercial Training or Coaching Service" during the period from April 2017 to June 2017; that the excess payment was due to non-consideration of credit notes issued in the month of June 2017 while making payment for the said period. The adjudicating authority has rejected the said refund claim on the grounds that the appellant has failed to furnish proper documentary evidence to establish the excess payment of Service Tax for which the refund claim was filed.


3. Aggrieved with the impugned order, the appellant has filed the instant appeal on the grounds that the adjudicating authority has passed the impugned order without giving opportunity of natural justice.

4. The appeal was heard on 10.10.2019 by the then Commissioner (Appeals), wherein, Shri Deepk Kumar Gupta, Chartered Accountant, appeared on behalf of the appellant and reiterated the submissions of Appeal Memo. He further submitted a written submission for consideration.

4.1 In the written submission, the appellant has, inter-alia, submitted that the adjudicating authority has passed the impugned order without issuing any deficiency memo and not given proper opportunity of being heard in the matter to explain the details or to submit any documents to his satisfaction. The appellant, in their written submission, has further submitted details of receipt of taxable service, Service Tax paid, details Service Tax return/revised return and details of refund claim of Rs.1,38,411/- arisen.

5. Due to change in Appellate Authority, Personal Hearings in the matter were subsequently granted to the appellant on 17.12.2019, 07.01.2020 and 04.02.2020. However, they did not avail the opportunity of the said hearings. Accordingly, I take up matter for decision on the basis of records available and submissions made by the appellant.

6. I have gone through the facts of the case and submissions made by the appellant in Appeal Memorandum as well as submission made in their written submission. The limited point to be decided in the matter is relating to the



eligibility of refund claim amounting to Rs.1,38,411/- towards excess payment of Service Tax.

7. Before going into the facts of the case, I find that the appellant has filed the instant appeal on 02.11.2019 against the impugned order received by them on 06.10.2018. As per Section 85 of the Finance Act, the instant appeal is required to file within two months from the date of communication of the impugned order. In the circumstances, the appellant has filed the appeal with a delay of 28 days from the prescribed period. However, they filed an application for condonation of delay in filing of appeal. The delay is condoned as per Provision (3A) of the Section ibid entrusted to me.

8. I find that the adjudicating authority has rejected the refund claim on the grounds that:

- The appellant has not provided the details of credit note to whom it was issued and reconciliation statement for the value of service and Service Tax paid in ST-3 return and actually required to be paid.
- The appellant has not given any documentary evidence to establish that they paid Service Tax by mistake due to non consideration of credit note.
- The appellant has failed to establish the correlation between the incidence i.e assessable value of Service Tax paid and assessable value of Service Tax payable.
- The appellant has failed to prove the aspect of unjust enrichment.

9. On perusal of records, I find that the contention raised by the appellant regarding non-adhering to the principles of natural justice is correct. In the instant case, I find that notice/deficiency memo for rejecting the claim was not issued to the appellant before adjudicating of the case. Apart from that, before rejecting the refund claim in question, no notice of hearing was issued to the appellant. It is a settled issue in law that every assessee/appellants should have been afforded an opportunity to represent their case, as the impugned order is an order of adjudication. In the instant case, the adjudicating authority has not given any such opportunity to the appellant. In the circumstance, on the said ground, the impugned order calls for interference and required to be set aside without going into the merit of the case.

10. In view of the above discussion, I set aside the impugned order. The appellant is at liberty to file all documentary evidences before the adjudicating authority. Therefore, the matter is remanded to the adjudicating authority with a direction to decide the matter afresh after considering the submission of the appellant. Needless to say, the Adjudicating Authority shall give a reasonable opportunity of hearing before passing the order.



11. In view of above, I remand the case to the adjudicating authority. The appeal stands disposed of in above terms.

Akhilesh Kumar
Akhilesh Kumar
Commissioner (Appeals)
/02/2020

Attested

Mohan V.V.
(Mohan V.V)
Superintendent (Appeals),
CGST, Ahmedabad.

By RPAD.

To,
M/s Apexa Information System Pvt Ltd.,
8th Floor, Wall Street Annexe, above J.B.Banguet,
Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad



Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad Zone .
2. The Principal Commissioner, Central Excise, Ahmedabad South.
3. The Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise Division-VI, Ahmedabad South.
4. The Assistant Commissioner, System, Central Excise, Ahmedabad South.
5. Guard File.
6. P.A.